

श्रवण गैंग का एक सक्रिय 25,000/- रुपये का ईनामी अपराधी सचिन डांसर पुलिस मुठभेड के बाद गिरफ्तार , कब्जे से चोरी की स्विफ्ट कार , लूटा गया मोबाईल फोन व अवैध अस्लाह बरामद - थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम द्वारा दिनांक 30.07.19 को सेक्टर-1 7 वसुंधरा साईमन्दिर के पास से चैकिंग के दौरान 01 शातिर लूटें को पुलिस मुठभेड के बाद गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से चोरी की स्विफ्ट कार , लूटा गया मोबाईल फोन व अवैध अस्लाह बरामद हुआ है |

गिरफ्तार अपराधी का नाम पता:-

1-सचिन उर्फ डांसर पुत्र वेदप्रकाश निवासी ग्राम बडोदा हिन्दवान थाना पिलुखवा हापुड व ग्राम गैसूपुर थाना किला परीक्षतगढ मेरठ हाल निवासी म0न0-1 सरोजनी नगर थाना विजयनगर गाजियाबाद

अपराध करने का तरीका:- अभियुक्तगण उपरोक्त शातिर किस्म का लूटेरा है , जो श्रवण गैंग में काम करता है । उक्त गैंग का मुखिया श्रवण वर्ष-2017 में पुलिस मुठभेड में जनपद गौतमबुद्धनगर में मारा जा चुका है तभी से अभियुक्त उक्त गैंग का सक्रिय सदस्य हैं। अभियुक्त शातिर किस्म का लूटेरा है जिसने अपने साथी के साथ मिलकर इंदिरापुरम क्षेत्र में दिनांक 13.07.19 को सीआईएसएफ में नियुक्त कर्मचारी के सिर पर पत्थर मारकर गम्भीर रूप से घायल कर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। अभियुक्त जनपद गौतमबुद्धनगर के थाना बिसरख व जनपद गाजियाबाद के थाना खोडा व इंदिरापुरमसे कई अभियोगों में लगातार फरार/वांछित चल रहा था | जिसकी गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद द्वारा **25,000/- रुपये का ईनाम घोषित(मु0अ0सं0- 1548/19 धारा 394 भादवि थाना इंदिरापुरम, गा0 बाद)** किया गया था। अभियुक्त सचिन उर्फ डांसर पर लूट व चोरी के करीब एक दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त के अपराधिक इतिहास व गैंग के अन्य सक्रिय सदस्यों के सम्बंध में गहनता से जांच की जा रही हैं।

बरामद का विवरण:-

- 1- एक स्विफ्ट कार न0-DL2AH7827(अ0स0-986/19 धारा 379/411 भादवि थाना इंदिरापुरम गा0बाद)
- 2- एक MI मोबाईल फोन (अ0स0-1548/19 धारा 394/411 भादवि थाना इंदिरापुरम गा0बाद)
- 3- 01 तमंचा 315 बोर मय 03 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस

अभियुक्त सचिन का अपराधिक इतिहास

क0स0	अ0स0	धारा	थाना	जनपद
1	695 / 16	25 / 4 आर्म्स एक्ट	विजयनगर	गाजियाबाद
3	646 / 16	379 / 411 भादवि	विजयनगर	गाजियाबाद
4	696 / 16	379 / 411 / 414 भादवि	विजयनगर	गाजियाबाद

5	881 / 16	2 / 3 गैंगस्टर एक्ट	विजयनगर	गाजियाबाद
6	1548 / 19	394 / 411 भादवि	इंदिरापुरम	गाजियाबाद
7	233 / 19	379 भादवि	खोडा	गाजियाबाद
8	986 / 19	379 भादवि	इंदिरापुरम	गाजियाबाद
9	503 / 19	379 / 411 भादवि	बिसरख	गौतमबुद्धनगर
10	674 / 19	414 भादवि	बिसरख	गौतमबुद्धनगर
11	1554 / 19	392 भादवि	इंदिरापुरम	गाजियाबाद

50 पच्चा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :- थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा दिनांक 30.07.19 को समय 11.00 बजे इन्द्रापुरी से अभियुक्त अब्दुल उस्मान पुत्र सलीम निवासी आर्यनगर थानालोनी बॉर्डर जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया है। जिसके कब्जे से 50 पच्चे अवैध शराब देशी हरियाणा मार्का बरामद हुई है।

51 पच्चा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :- थाना लोनी पुलिस द्वारा दिनांक 30.07.19 को समय 19.35 बजे शमशान घाट के सामने से अभियुक्त सलीम पुत्र मकसूद निवासी प्रशांत विहार थाना लोनी जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया है। जिसके कब्जे से 51 पच्चे अवैध शराब अंग्रेजी व देशी हरियाणा मार्का बरामद हुई है।

अवैध असलहा सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार :- थाना लोनी पुलिस द्वारा दिनांक 31.07.19 को समय 00.13 बजे प्रेमनगर से अभियुक्तगण 1. सूरज पुत्र बाबूराम निवासी सुन्हेडा थाना खेखडा जनपद बागपत 2. रहीम पुत्र सुराजुधीन निवासी उपरोक्त 3. फरमान पुत्र इलियास निवासी उपरोक्त को गिरफ्तार किया है। जिनके कब्जे से 02 CMP 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 छुरी बरामद हुई है।

45 पच्चा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :- थाना इंदिरापुरम पुलिस द्वारा दिनांक 31.07.19 को समय 01.30 बजे शमशान घाट झुग्गी-झोपड़ी से अभियुक्त अजीउल पुत्र आकिल निवासी मकनपुर थाना इंदिरापुरम जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया है। जिसके कब्जे से 45 पच्चे अवैध शराब अंग्रेजी अरुणाचल प्रदेश मार्का बरामद हुई है।